

दर्ज करना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार प्रार्थियों के प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होते हैं।

अतः न्यायहित में प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाते हैं। पत्रावली फैसल की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

